

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 30, 1982/माघ 10, 1903
No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 30, 1982/MAGHA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

*Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation*

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1982

(सं० 10/82 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

सं० का० वि० 35 (घ) :—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944
(1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 31 दिसम्बर, 1981
की अधिसूचना सं० 209/81-के० उ० शु० को अधिस्तुत करके हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधि-
सूचना की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाली और मुल्यानुसार
शुल्क से प्रभावी चीनी के लिए चार सौ पच्चीस रुपये प्रति क्विंटल टैरिफ मूल्य निश्चित करती
है :

परन्तु इस अधिसूचना की कोई भी बात, ऐसी चीजों को लागू नहीं होगी, जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ब) के अधीन किए जाने की अपेक्षा करती है।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1982 से प्रवृत्त होगी।

[10/82-के०उ०शु०/फा०सं० 7/1/82-के०उ०शु -1]

आर० देव, ऊपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 1982

(No. 10/82-CENTRAL EXCISES)

G.S.R. 35(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 209/81-Central Excises, dated the 31st December, 1981 the Central Government hereby fixes a tariff value of four hundred and eighty five rupees per quintal of sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty ad-valorem :

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

2. This notification shall come into force on the 1st-day of February, 1982.

[No 10/82-CE/F.No. 7/1/82 CX.I.]

R. DEB, Under